



कार्य-निष्पादन विशेषताएं

30 जून 2020 को समाप्त तिमाही

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड.
एक नवरत्न पीएसयू



बेहतर भविष्य के लिए निधियन

विषय – सूची

क. पीएफसी – एक नजर

ख. एकल कार्य-निष्पादन

1. विशेषताएं
2. अर्जन संबंधी अपडेट
3. परिसंपत्ति गुणवत्ता
4. प्रचालन कार्य-निष्पादन
5. शेयरधारकों का दृष्टिकोण

ग. समेकित कार्य-निष्पादन

1. विशेषताएं



क. पीएफसी एक नजर

विद्युत क्षेत्र में अग्रणी वित्तपोषक



भारतीय विद्युत क्षेत्र में सबसे बड़ी सरकारी
वित्तपोषण प्रदाता

2 “नवरत्न” कंपनियों के साथ ग्रुप – पीएफसी एवं आरईसी



भारत सरकार
द्वारा अधिकांश
स्वामित्व



विद्युत क्षेत्र में
सरकार के लिए
महत्वपूर्ण वित्तीय
पार्टेनर



‘एएए’ की सबसे
बड़ी दीर्घकालिक
घरेलू रेटिंग




पीएफसी ग्रुप
विद्युत क्षेत्र की
सबसे बड़ी वित्तीय
कंपनी है



#फॉर्च्यून 500
इंडिया में 34
स्थान (2019)

पीएफसी समूह संगठक




1. ईईएसएल – एनर्जी एफिशिएन्सी सर्विस लिमिटेड
2. ईईएसएल में 47.15% स्टोक पीएफसी (24.97%) और आरईसी (22.18%) का समेकित स्टोक है



ख. एकल कार्य-निष्पादन

1. विशेषताएं

तिमाही 1'21 में परिदृश्य



वर्ष-दर-वर्ष पीएटी में
23% की वृद्धि

ति. 1'21 में 1,700 करोड़
रुपए बनाम ति. 1'20 में
1,383 करोड़ रुपए



तिमाही 4'20 में
सीआरएआर से 36
बीपीएस की वृद्धि

ति. 1'21 सीआरएआर में CRAR
17.32% - टीयर I - 13.11% एवं
टीयर II - 4.21%



2 दबावग्रस्त परिसंपत्तियां
का 1,353 करोड़ रुपए का
समाधान एवं अपग्रेड

एस्सार ट्रांसमिशन - 438 करोड़ रुपए
एवं सुजलोन एनर्जी - 915 करोड़
रुपए



एनपीए स्तरों पर 211
बीपीएस की कमी

ति. 1'21 में 7.50% बनाम ति. 1'20
9.61%



ति. 1'20 में 124 बीपीएस
निवल एनपीए में कमी

ति. 1'21 में 3.41% बनाम ति. 1'20
में 4.65%

पीएफ़सी की डिस्कॉम ऋण योजना

योजना के अंतर्गत अब तक 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा संस्वीकृत एवं 8,500 करोड़ रुपए से ज्यादा संवितरण



2. અર્જન સંબંધી અપડેટ

राजस्व एवं वृद्धि

(रुपए करोड़ में)

विवरण	ति1 विव 21	ति1 विव 20	विव 20
ब्याजगत आय	8,749	7,531	31,950
ब्याजगत व्यय	5,676	5,366	21,853
निवल ब्याज आय	3,073	2,165	10,097
कर पश्चात लाभ	1,700	1,383	5,655
कुल संचयी आय	1,646	1,408	5,321

(समाप्त वर्ष – मार्च)

विश्लेषण के उद्देश्य के लिए कुछ आंकड़ों को फिर से पुनःएकत्र / पुनर्गठित किया गया है। इसलिए, वे रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के साथ सामंजस्य नहीं कर सकते हैं।

मुख्य अनुपात

(% में अनुपात)

विवरण	ति. 1 वित्तीय वर्ष 21	ति.1 वित्तीय वर्ष 20	वित्तीय वर्ष 20
अर्जित परिसंपत्तियों पर लाभ	10.68	10.61	10.63
निधियों की लागत	7.68	7.90	7.79
अर्जित परिसंपत्तियों पर ब्याज स्प्रेड	3.00	2.71	2.83
अर्जित परिसंपत्तियों पर निवल ब्याज मार्जिन	3.48	3.06	3.17
नेट वर्थ (शेयर पूंजी + सभी रिजर्व)	46,940 रुपए करोड़	44,709 रुपए करोड़	45,164 रुपए करोड़

(समाप्त वर्ष – मार्च)

Ratios are annualised & are based on daily average and rounded off. अनुपात वार्षिकीकृत किए गए हैं और दैनिक औसत पर आधारित हैं और राउंड ऑफ किए गए हैं।

3. परिसंपत्ति गुणवत्ता

प्रावधान स्नैपशॉट – 30.06.2020

(रुपए करोड़ में)



30.06.2020 के अनुसार
प्रावधान स्थिति

निजी क्षेत्रों के चरण-III
परिसंपत्तियां (एनपीए) के विरुद्ध
55% प्रावधान


	चरण I एवं II	चरण III	चरण III (एनपीए) में ऋण परिसंपत्तियों में वृद्धि का %	कुल
बकाया ऋण परिसंपत्तियां				
- सरकारी क्षेत्र	2,94,886	-	शून्य	2,94,886
- निजी क्षेत्र	32,174	26,535	7.50%	58,709
कुल बकाया राशि	3,27,060	26,535	7.50%	3,53,595
कुल प्रावधान राशि	1,333	14,477	-	15,810
निवल परिसंपत्तियां	3,25,727	12,058	3.41%	3,37,785

Note - Provision has been made in respect of all loans assets as per Expected Credit Loss (ECL) methodology under Ind As.

परिसंपत्ति गुणवत्ता स्नैपशॉट

30.06.2020 तक 3,53,595 करोड़ रुपए की ऋण बही

पिछले 4 वर्षों में न्यूनतम निवल एनपीए



सरकारी क्षेत्र




83%

निजी क्षेत्र



17%

मानक परिसंपत्ति



92%

समाधान स्थिति – चरण III परिसंपत्तियां

26,535 करोड़ रुपए की ऋण परिसंपत्तियां चरण 3 की समाधान स्थिति



एनसीएलटी समाधान

एनसीएलटी में 16,162 करोड़ रुपए

17 परियोजनाएं

62% प्रावधान

बाहरी एनसीएलटी समाधान

बाहरी एनसीएलटी 10,373 करोड़ रुपए का समाधान किया जा रहा है।

10 परियोजनाएं

42% प्रावधान

74% प्रावधान/आरक्षित* के विरुद्ध चरण III परिसंपत्तियां उपलब्ध

*चरण I को छोड़कर आरक्षित/प्रावधान + अशोध्य एवं संदेह ऋण के लिए आरक्षित + सेक्शन 45 आईसी आरक्षित


4. प्रचालनात्मक कार्य-निष्पादन

ऋण परिसंपत्ति – संघटक

टी एवं डी और नवीकरणीय ब्यापार की तरफ बढ़ता जोर

(रुपए करोड़ में)

	30.06.2020 तक	30.06.2019 तक	31.03.2020 तक
सकल ऋण परिसंपत्तियां	3,53,595	3,16,886	3,44,905
योजना वार			
उत्पादन	2,43,607	2,25,449	2,37,178
▪ पारंपरिक उत्पादन	2,06,092	2,06,947	2,00,173
▪ नवीकरणीय ऊर्जा	37,515	31,265	37,005
• नवीकरणीय ऊर्जा – बड़ी हाइड्रो परियोजनाएं (>25 मे.वा.)	17,892	12,763	17,594
• बड़ी हाइड्रो परियोजनाओं के अलावा नवीकरणीय ऊर्जा	19,623	18,502	19,411
पारेषण	29,958	25,811	29,159
वितरण	77,923	63,075	75,892
अन्य	2,107	2,551	2,676
क्षेत्र वार			
सरकारी क्षेत्र	2,94,886	2,60,402	2,87,514
निजी क्षेत्र	58,709	56,484	57,391




संवितरण संघटक

(रुपए करोड़ में)

	ति. 1 वित्तीय वर्ष 21		ति. 1 वित्तीय वर्ष 20		वित्तीय वर्ष 20	
	राशि	%	राशि	%	राशि	%
संवितरण	17,271	100%	10,466	100%	67,997	100%
योजना वार						
उत्पादन	10,909	63%	6,483	62%	36,012	53%
पारेषण	1,657	10%	883	8%	7,096	10%
वितरण	4,634	27%	3,053	29%	24,331	36%
अन्य	71	0.4%	48	0.5%	558	1%
क्षेत्र वार						
सरकारी क्षेत्र	14,854	86%	7,091	68%	59,180	87%
निजी क्षेत्र	2,417	14%	3,375	32%	8,817	13%

30.06.2020 तक सम्मिलित देयताएं

5 वर्ष अवशिष्ट
परिपक्वता के साथ
एफसीएल के लिए
74% विनिमय जोखिम



कम लागत निधियों तक पीएफसी की पहुंच

54 ईसी मुख्य विशेषताएं

54 ईसी ऋणकर्ता
पोर्टफोलियो
ति.1'20 में दोगुना

पात्र निवेश



व्यक्ति विशेष, एचयूएफ, एनआरआई, एफआई, साझेदारी बैंक, म्यूचुअल फंड बीमा कंपनी, पीएफ फंड

अवधि



अनुमानित (डीमंड) आबंटन तारीख से 5 वर्ष

कूपन दर




5.00% प्रति वर्ष

निवेशकों के लिए हितलाभ

पीएफसी के 54ईसी बॉण्डों में निवेश पर 50 लाख तक की पूंजीगत परिसंपत्ति छूट का हस्तांतरण करने पर दीर्घावधि पूंजीगत लाभ

5. शेयरधारकों का दृष्टिकोण

30.06.2020 तक शेयरधारकों का दृष्टिकोण



उपर्युक्त इक्विटी अनुपात के लिए संभावित इंगित

ईपीएस
(वार्षिक)

25.75 रुपए

बही मूल्य प्रति शेयर

177.80 रुपए

अर्जित अनुपात पर
मूल्य

3.27

बही मूल्य अनुपात पर
मूल्य

0.47

उपर्युक्त अनुपात तिमाही 1'21 के लिए है और रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक बीएसई से उपलब्ध क्लोजिंग शेयर मूल्य के आधार पर है।



ग. समेकित कार्य-निष्पादन

1. विशेषताएं

समेकित स्नैपशॉट



कुल आय - 16,932 करोड़ रुपए .



ऋण परिसंपत्ति -
6,84,383 करोड़ रुपए .



सकल एनपीए- 6.83%



ति.1'21 पीएटी 3,557 करोड़ रुपए .



सीआरएआर- 16.48%



निवल एनपीए - 3.15%



मुख्य समेकित वित्तीय

(रुपए करोड़ में)

विवरण	ति. 1 वित्तीय वर्ष 21	ति. 1 वित्तीय वर्ष 20	वित्तीय वर्ष 20
ब्याज आय	16,856	14,509	61,628
ब्याज व्यय	10,869	9,937	40,845
निवल ब्याज आय	5,987	4,572	20,783
कर पश्चात लाभ	3,557	2,900	9,477
कुल संचयी आय	3,665	2,899	8,589

(समाप्त वर्ष - मार्च)

Some figures may have been regrouped / reclassified for analysis purpose. Therefore, they may not reconcile with the reported figures.

धन्यवाद !

कोई प्रश्न?

आप पीएफसी की निवेशक संबंधी टीम से investorrelations@pfcindia.com पर संपर्क कर सकते हैं।

Disclaimer

- ▶ The presentation is prepared based on consolidated/stand-alone un-audited financial statements of PFC for quarter ended 30.06.2020
- ▶ There is a possibility of Ind AS financial results and the additional disclosures to be updated, modified or amended because of adjustments which may be required to be made on account of introduction of new standards or its interpretation, receipt of guidelines or circulars from regulatory bodies and/or Reserve Bank of India
- ▶ This presentation may contain statements which reflect Management's current views and estimates and could be construed as forward looking statements. The future involves uncertainties and risks that could cause actual results to differ materially from the current views being expressed. Potential uncertainties and risks include factors such as general economic conditions, currency fluctuations, competitive product and pricing pressures, industrial relations and regulatory developments.
- ▶ We do not update forward-looking statements retrospectively. Such statements are valid on the date of publication and can be superseded.
- ▶ Figures are regrouped / reclassified to make them comparable.
- ▶ 'Analytical data' are best estimates to facilitate understanding of business and NOT meant to reconcile reported figures.
- ▶ Answers will be given only to non-price sensitive questions.
- ▶ This presentation is for information purpose only and does not constitute an offer or recommendation to buy or sell any securities of PFC. Any action taken by you on the basis of the information contained in the presentation is your responsibility alone and PFC or its directors or employees will not be liable in any manner for the consequence of such actions taken by you.